

F.D.R-2001. અનર્ગલ પારિવિસંગીત પ્રલંડ મેં
અમકુરો સેકુમરિયાપલ્લ મેં મોસરેલુલ અર્કી

Schedule XLV-Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

માપિત્રુત્તર પોસરેલુલ-02/2001-22.

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्त में मुद्रित रूप से पन्ने हैं
जो श्री चन्द्रशेखर सिंह सहचर
अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
अवर प्रमडल फारविस गंज के नाम से
निर्गत किया जाता है।

6/8/21
30/7/21

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमडल फारविस गंज

Pankaj
30/7/21

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 02-

2021-22

Name of officer _____

Name of Work—

Situation of Work—

Agency by which work is executed—

Date of Measurement—

No. and date of agreement


(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work—					
from Dhankur to Dunda iya					
Agency—					
Authority—					
C. Head—					
Date of entry—					
work done—					

① Providing Filling of local sand					
	do			all	
1.0 x 30.00 x	$\frac{1.5+2.5}{2} \times$	$\frac{1.6+2.5+1.8}{3}$			= 118.00
1.0 x 54.00 x	$\frac{1.5+2.5}{2} \times$	$\frac{1.6+2.5+1.8}{3}$			= 212.40 ± 00
1.0 x 29.00 x	$\frac{1.6+2.5}{2} \times$	$\frac{1.6+2.5+1.8}{3}$			= 116.92 ± 00
2.00 x 23.00 x	$\frac{1.6+1.8}{2} \times$	$\frac{1.5+1.7}{2}$			= 125.12
					572.44
② Providing labour for cutting 62mm dia 75mm dia bamboo pile					
	do			all	
1.0 x 30.00 x 3.00 x 3.00					= 270.00
1.0 x 54.00 x 3.00 x 3.00					= 486.00
1.0 x 29.00 x 2.00 x 3.00					= 174.00
2.00 x 23.00 x 3.00 x 2.00					= 276.00
					1206.00
Continuation					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
③ providing labour for lining					lining
62mm dia	75	1.11	dia	do	
1.00 x 30.00	1.00 x 3.00			=	30.00
1.00 x 54.00	1.00 x 3.00			=	162.00
1.00 x 29.00	1.00 x 2.00			=	58.00
2.00 x 23.00 x 3.00				=	138.00
					488.00
④ supplying at p.c bags, lining					
at local sand			do		all
1 x 30.00 x $\frac{0.6+0.9}{2}$		1.6	$\frac{2.5+1.8}{3}$	=	66.30
1 x 54.00 x $\frac{0.6+0.8}{2}$		1.6	$\frac{2.5+1.8}{3}$	=	20.79
1.0 x 29.00 x $\frac{0.4+0.8}{2}$		1.6	$\frac{2.5+1.8}{3}$	=	11.17
2.0 x 23.00 x $\frac{0.4+0.5}{2}$		1.5	$\frac{1.7}{2}$	=	25.88
					124.13
253.45 x 35.315					4334 bags
⑤ supply and carriage at bricks					
bricks		do			all
1.0 x 30.00 x 1.50		x 0.15		=	6.75
1.0 x 54.00 x 1.60		x 0.15		=	12.96
1.0 x 29.00 x 1.60		x 0.15		=	6.96
2.00 x 23.00 x 1.90		x 0.15		=	13.11
					39.78
⑥ supply laying and carriage at man					
444 dia	444		do		all
2.0 x 2.00 x 2.50				=	10.17

Continuation




Abstract of cost

3

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Provide and filling of local sand		do		all comp	
572244 m ³ P ₂ ① Lt ①					
@ 627277/m ³					Rs. 357360.51
② M & L for cutting bamboo piles		do		all comp	
120600 m ³ P ₃ ① Lt ②					
@ 75284/m ³					Rs. 91485240
③ M & L for filling and for bamboo runner		do		all comp	
448.00 m ³ P ₂ ② Lt ③					
@ 40.06/m ³					Rs. 1794720
④ supply of BC bag		do		all	
4383.65 kg P ₂ ② Lt ④					
@ 37035/kg					Rs. 163714099
⑤ supply and carriage of brick bat		do		all	
39278 m ³ P ₂ ② Lt ⑤					
@ 1851297/m ³					Rs. 73669212
⑥ supply, carriage and carriage of lime PPK		do		all	
10.00 m ³ P ₂ ② Lt ⑥					
@ 5251.25/m ³					Rs. 52512.46
					75869020
					9104320
					84973200

Continuation

Adm
15/10/14

4/11/14

DAO
10/11/14